



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ 1936 (श0)  
(सं0 पटना 587) पटना, सोमवार, 14 जुलाई 2014

#### वाणिज्य—कर विभाग

संचिका सं0 7/एम0ई0-401-104/2013-2980/

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक 30.06.2014

**विषय:—** बिहार वाणिज्य—कर विभाग क्षेत्रीय स्थापना के लिए वाणिज्य—कर निरीक्षक के कुल 901 पदों का सृजन ।

**आदेश :-** स्वीकृत ।

2. बिहार वाणिज्य—कर विभाग क्षेत्रीय स्थापना के लिए वेतनमान रु० 9300-34800+ ग्रेड पे- 4200 में वाणिज्य—कर निरीक्षक के कुल 901 पदों का सृजन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद् की दिनांक 10.06.2014 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

3. वाणिज्य—कर विभाग में वाणिज्य—कर निरीक्षक का स्वीकृत बल निम्नवत् होगा :-

क्र०सं०	प्रशासनिक इकाई	प्रशासनिक इकाई की संख्या	वाणिज्य—कर निरीक्षक का पद	कुल
1	प्रमंडलीय अन्वेषण ब्यूरो	09	72	72
2	जाँच—चौकी	17	544	544
3	अंचल कार्यालय	50	285	285
			कुल	901

4. स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय का वहन बजट शीर्ष 2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर, लघु शीर्ष 101—संग्रहण प्रभार, उप शीर्ष 0001—जिला प्रभार, मांग संख्या—17 विपत्र कोड N-2040001010001 के अन्तर्गत गैर योजना मद से किया जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रामेश्वर सिंह,  
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 587-571+300-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>